



CHANDRAPAL DADSENA GOVT. COLLEGE PITHORA, DISTRICT MAHASAMUND (CHHATTISGARH)-493551

Registered Under section (2F) & (12B) of UGC act Phone No.07707-299373

Websit- www.govtcollegepithora.ac.in Email. govtcollege.pithora@gmail.com

1. Alternate sources of energy and energy conservation Measures-Documents

LED BULBS

The total lighting (luminary) load of the college is about 8 kW which includes fluorescent tubes 36/40w, LED lights 9w etc. LED lights is good from energy efficiency point of view. LED tube lights are also available in the market, which is also good from energy efficiency point of view. These lights are switched ON in the night with the help of timer. During study, tube lights were ON in the class room and it was observed that lux level was good (240 – 320) in the class room near to window. But Lux level was down (120 – 200) near the entrance door and its wall side. It is advisable to increase some tube lights in the class room for better lux value.

Total Number of LED Bulbs and CFL Tubelights = 474

LED LIGHTS IN OFFICES



LIGHT IN CLASS ROOM





**CHANDRAPAL DADSENA GOVT. COLLEGE PITHORA, DISTRICT
MAHASAMUND (CHHATTISGARH)-493551**

Registered Under section (2F) & (12B) of UGC act Phone No.07707-299373

Websit- www.govtcollegepithora.ac.in Email. govtcollege.pithora@gmail.com

LED LIGHTS IN PRINCIPAL OFFICE



INVERTER





CHANDRAPAL DADSENA GOVT. COLLEGE PITHORA, DISTRICT MAHASAMUND (CHHATTISGARH)-493551

Registered Under section (2F) & (12B) of UGC act Phone No.07707-299373

Website- www.govtcollegepithora.ac.in Email. govtcollege.pithora@gmail.com

sources of energy and energy conservation data

// २०१९-२० //

संशोधन कार्य के लिए संचालित प्रयोग प्रयोगशाला

परिचालन विवरण में उल्लेखित स्थानों में उपरोक्त क्रमांक-494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

प्रयोग विवरण

क्र. सं.	वर्ष	दिनांक	स्थान	विवरण
1	17	01	04	
2	17	05	01	
3	17	11	01	
4	17	01	01	
5	18	02		01
6	17	02		
7	17	06		
8	17	06		
9	17	08		
10	17	08		
11	17	08		
12	05	01		
13	04	02		
14	03	02	01	
15	04	01		
16	20	03		
17	16	04		
18	12	05		
19	12	06		
20	07	02		
21	11	02		
22	12	02		
23	12	03		
24	12	04		
25	12	06		
26	12	06		
27	06	02		

प्रयोग विवरण

क्र. सं.	वर्ष	दिनांक	स्थान	विवरण
01	04	04		
02	03	02		
03	03	01		
04	05	04		
05	03	01		
06	00	04		
07	06	04		
08	00	03		
09	03	06		
10	11	05		
संशोधन विभाग		05		


 संशोधन विभाग
 महासमुंद विश्वविद्यालय
 पथोरा-493551


